

## बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके उपनाम

### राजेंद्र प्रसाद

- **उपनाम-** देश रत्न, आजातशत्रु
- इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था
- वे नमक सत्याग्रह (1930) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान बिहार के प्रमुख नेता थे।
- उन्हें 1934 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था

### जगजीवन राम

#### उपनाम- बाबूजी

- वह अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के संस्थापक सदस्य थे।
- वह जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे और श्रम मंत्री के रूप में भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बने थे।

### श्री कृष्ण सिंह

- **उपनाम-** बिहार केसरी श्री बाबू
- श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे।
- उन्हें आधुनिक बिहार का वास्तुकार माना जाता था।
- वह जमींदारी प्रणाली को खत्म करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री थे।

### डॉ. अनुग्रह नारायण सिन्हा

- **उपनाम-** बिहार विभूति
- सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे

### जयप्रकाश नारायण

- **उपनाम-** जेपी, लोक नायक
- जेपी ने इंदिरा गांधी सरकार के अत्याचारों के खिलाफ 1975 में 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया था।
- प्रख्यात हिंदी लेखक रामबृक्ष बेनीपुरी ने इनकी जीवनी लिखी।
- उनके सम्मान में सरकार ने छपरा-दिल्ली-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस का नाम बदलकर लोकनायक एक्सप्रेस कर दिया।
- पुरस्कार- भारत रत्न, 1965 में लोक सेवा के लिए मैगसेसे पुरस्कार।

### कर्पूरी ठाकुर

- **उपनाम-** जन नायक
- वह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे।
- उन्होंने दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।

### कुंवर सिंह-

- **उपनाम-** बाबू
- वे 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे।
- उन्हें वीर कुंवर सिंह के नाम से जाना जाता है। वह बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य आयोजक थे।

### रामधारी सिंह दिनकर

- **उपनाम-** राष्ट्रीय कवि
- वे एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी कवि, निबंधकार, देशभक्त और शिक्षाविद थे।
- उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।